



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6--दिसम्बर 12, 2003 (अग्रहायण 15, 1925)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6--DEC. 12, 2003 (AGRAHAYANA 15, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफिसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

दिनांक 20 नवम्बर 2003

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं० ए-19014 / 6 / 2003-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, श्री प्रभुवत्त भारद्वाज, उप निदेशक (रा० भा०) को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप, 17 नवम्बर, 2003 के अपराह्न से, आगामी आदेशों तक मंत्रिमंडल सचिवालय में नियुक्त करते हैं।

मुनील मिश्र, उप सचिव

सं० 6/1/3/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री एम० डी० मंकड, आई० ए० एस० (गुजरात : 83) को नियंत्रक (प्रशासन) के रूप में दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 के पूर्वान्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 17 नवम्बर 2003

दिनांक नवम्बर 2003

सं० 12/2/8/2003-I—अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में श्री टी० सोमशेखर राव, लेखा अधिकारी (वित्त) ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 12/7/4/2003-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में श्री एच०एन० शंकर राव, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महा लेखाकार का कार्यालय (ए व ई), कर्नाटक श्री रु० 10000-325-15200 के वेतनमान पर लेखा अधिकारी (वित्त) के पद पर संयुक्त सचिव (वित्त) के कार्यालय में

अक्तूबर 31, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेश तक
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2003

सं० ए-19(12)/2003-प्रशा०-II—सूचना और प्रसारण
मंत्रालय के दिनांक 25-9-2003 के आदेश सं० 84/आई०आई०
एस०/2003 के तहत, आकाशवाणी शिलांग के सहायक समाचार
सम्पादक के पद से योजना आयोग में स्थानांतरण होने पर
श्री मोहम्मद नसीम ने योजना आयोग में 6500-200-10500
रुपए के घेतनमान में सहायक सूचना अधिकारी के पद का
कार्यभार दिनांक 10-11-2003 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर
लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2003

सं० ए० 12026/5/2003-प्रशा०-I (वि०वि०)—
राष्ट्रपति महोदय, भारतीय विधि सेवा के स्थायी अधिकारी तथा
वर्तमान में विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधि
सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री बी० ए० अग्रवाल को विधि
एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 19 नवम्बर
2003 के पूर्वाह्न से अपर सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त
करते हैं।

एन० एल० मीना,
संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (प्रशा०)

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2003

फा० सं० ए-12023/31/99-प्रशा०-III (वि० का०)—
आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम,
1963 के अधीन, निवर्तन की आयु अर्थात् 62 वर्ष के होने
पर, श्री बी० डांगजाशंग, अध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण
दिनांक 31 अक्तूबर, 2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से
निवृत्त हो गए हैं।

यशवंत सिंह, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2003

सं० 14034/6/2003-रा० भा० (प्रशि०)—संघ लोक
सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप, राजभाषा
विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी
प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक
(भाषा), श्री एस० एल० एस० पुति को उसी कार्यालय में उप
निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) के पद पर रुपये 10,000-
325-15,200 के घेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 31
अक्तूबर, 2003 (पूर्वाह्न) से, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० रमणन, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं० क्यू/पीए I/37/2003—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा
के ग्रेड-II में कार्यरत अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार त्यागी,
को उसी स्थान पर 1 अगस्त, 2003 की पूर्वाह्न से इस सेवा
के ग्रेड-II में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान नियुक्ति	पदोन्नति की तारीख
1	श्री राजेन्द्र कुमार त्यागी	मिनिस्टर, भारत का राजदूतावास, मैड्रिड	1-8-2003

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी तथा संवर्ग)

दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं० क्यू/पी ए I/41/03—भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I के
अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के
स्थायी प्रतिनिधि श्री विजय के० नाम्बियार की 31-8-2003
(अपराह्न) को अधिवर्षिता के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी
1-9-2003 से 31-5-2004 तक नौ माह की अवधि के लिए
श्री विजय के० नाम्बियार को न्यूयार्क में भारत का स्थायी
प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एस पी तथा संवर्ग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 2003

सं० डी-III/460/सी एफ 15/2002—भारत के राष्ट्रपति
न श्रीमती राधा भाटीया की नई दिल्ली में सोलोमन आईलैंड्स
अर्बेनिक मानव कौंसिल के काम में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव
से मान्यता दे दी है।

श्रीमती राधा भाटोया के कौंसली क्षेत्राधिकार में भारत का सम्पूर्ण राज्य होगा।

पी०पी० सीरकार, प्रोतीकोल उप प्रमुख (एफ)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2003

सं० एफ० 1/19/2002-करेसी-III--श्री आर० बी० सहस्त्रबुध, मुख्य निपटण अधिकारी, करेसी नाट प्रेस, नासिक रोड की सेवानिवृत्ति की आय पूरी कर लेने पर, 31 अक्तूबर, 2003 के अपराह्न से मुख्य निपटण अधिकारी के पद के कार्यभार से मुक्त किया जाता है। उस तारीख से उसका नाम करेसी नाट प्रेस की हाजिरी पंजिका से हटाया जाता है।

अपराजिता चौधरी,
अवर सचिव

दिनांक 19 नवम्बर 2003

एफ० सं० 3/22/2003-मुद्रा-III--अधिवर्षित की आय प्राप्त कर लेने पर श्री एस० ए० शिगने, प्रबंधक (डिजाइन), भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड नं० 31 अक्तूबर, 2003 (अपराह्न) से आना पद भार छोड़ दिया है। उसी तिथि से उसका नाम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय को सूची से हटा दिया गया है।

अपराजिता चौधरी
अवर सचिव

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 नवम्बर 2003

सं० पी०एफ० (390) 79 प्रशा०-II--भारतीय कंपनी विधि सेवा के 12,000-375-16500 रुपए के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (विश्र शाखा) में उसकी प्रोन्नति होन पर केंद्रीय सरकार ने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (विश्र शाखा) अधिकारी श्री ए० डब्ल्यू० अंसारी को 19-9-2003 के पूर्वाह्न में अगले आदेशों तक प्रादेशिक निदेशक, मुम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न रूप से संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) (उप शासकीय समापक, मुम्बई के अतिरिक्त कार्यभार सहित) के पद पर नियुक्त किया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं० ए-12022/1/2003 स्था०-I--राष्ट्रपति, श्री एस० के० सुद, भा० प्र० सेवा (हिमाचल प्रदेश : 71) को 6-10-2003

की पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक पूर्ति तथा निपटान मह-निदेशालय, वाणिज्य विभाग में अवर सचिव के पद और वेतन में महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) नियुक्त करते हैं।

एस० के० देव, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2003

सं० 20/2003(ए19011/12/2003-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री सैयद नसिमत तौहिद, बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारी को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में दिनांक 1 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्री (श्री संशद शाहनवाज हुसैन) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सैयद नसिमत तौहिद की नियुक्ति सह-अवधि के आधार पर अथवा जब तक वस्त्र मंत्री चाहेंगे तब तक की अवधि, इनमें से जो पहले हो, होगी।

प्रेम कुमार गेरा, निदेशक

विनिवेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं० 9(4)/2003-प्रशा०--राष्ट्रपति, भारतीय लागत लेखा सेवा (1990) के अधिकारी श्री बी० के० अग्रवाल को विनिवेश मंत्रालय में 10 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी० पी० गुप्ता, अवर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2003

सं० ए-18011(38)/2003-स्था.--राष्ट्रपति, श्री बी० के० मुखोपाध्याय, के० सं० सं०, उप सचिव (स्व-स्थाने) को दिनांक 5-11-2003 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर देते हैं अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, माननीय लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री तपन सिकंदर) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रिछपान, अवर सचिव

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० ए-18011/44/2003-स्था०--राष्ट्रपति, श्री बी० एस० मिन्हास, भा० प्र० से० (राजस्थान : 69) को लघु

उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में दिनांक 3-11-2003 के अपराह्न से अगले आदेश तक सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० 1/3/2001-प्रशा०/डीएसआईआर—राष्ट्रपति, श्री ललित गुप्ता, वैज्ञानिक 'डी' को आगामी आदेशों तक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में संशोधित नमनीय पूरक स्कीम (एफसीएस) के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 05-11-2003 से वैज्ञानिक 'एफ' नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

सं० 1/3/2001-प्रशा०/डीएसआईआर—राष्ट्रपति, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया सिविल रीट पेटिशन संख्या 5874/2002 के विचाराधीन रहते हुए श्री हरबंश लाल जस्सल, वैज्ञानिक 'डी' को आगामी आदेशों तक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में संशोधित नमनीय पूरक स्कीम (एफसीएस) के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 05-11-2003 से वैज्ञानिक 'एफ' नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० ए 38012/1/2003-भाविप (स्था-II)—श्रीमती मालती एस० सिन्हा, आई ए एस (बिहार : 66) ने अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने के परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 2003 के अपराह्न से भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वी० आर० चुग, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० 27-2529/2003-स्था-I—राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता) में उप सचिव श्री पी० के० शर्मा, आई एफ एस (उ०प्र० : 86) को 3-11-2003 के पूर्वाह्न से उनके कार्याकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 8-9-2008 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी विभाग में 14,300-400-18,300/- रु० के वेतनमान में, वैयक्तिक मामले के तौर पर, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं० 12026/6/2001-स्था०-I/स्था०-5—राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित उपायुक्त (आई एन एम) श्री जे० एस० मान को 4-11-2003 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक के लिए प्रोन्नति आधार पर 14300-18300/- रु० के वेतनमान में अपर आयुक्त (आई एन एम) नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

पशुपालन और डेयरी विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 नवम्बर 2003

सं० 2-22/2002-मात्स्यिकी (प्रशासन)—राष्ट्रपति, श्री के० गोपालकृष्णन, क्षेत्रीय निदेशक को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में 14,300-400-18,300/- रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर दिनांक 22-9-2003 के पूर्वाह्न से उप महानिदेशक (मात्स्यिकी), सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसचिवीय के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० के० मेहता, अवर सचिव

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2003

सं० ई(जी०पी०) 2000/1/39—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल सिविल इंजीनियर विभाग के दक्षिण रेलवे के

श्री वी० नटराजन (अ००००००) मुक्त "बी" अधिकारी की 13-9-2002 से भारतीय रेल मिविल इंजीनियर सेवा के ग्रुप "ए" कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति करने के वास्ते सहर्ष अनुमोदन करते हैं। बहरहाल, श्री वी० नटराजन 4-7-2003 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

आर० आर० भंडारी, सचिव/रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक, 16 अक्टूबर 2003

सं० ए-12012/5/2001-स्था-I—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के संवर्ग में ग्रेड 'ग' आशुलिपिक श्रीमती राज मोहन आहलुवालिया को 13-10-2003 के पूर्वाह्न से 6 माह की अवधि के लिए अथवा नियमित/चयन सूची का अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, 6500-10,500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर इसी सेवा के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमती राज मोहन आहलुवालिया, निजी सचिव (तदर्थ) का पोट परिवहन मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2003

सं० ए-19011/4/2003-स्था—राष्ट्रपति, भारतीय विमानन प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजीव जैन को निदेशक के स्तर पर दिनांक 29-9-2003 से पोट परिवहन राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी) के निजी सचिव के रूप में उनकी बाकी बची पाँच वर्ष की पदावधि, जोकि 5-2-2008 तक है अथवा जब तक वह पोट परिवहन राज्य मंत्री के निजी सचिव रहते हैं या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनकी पदावधि 5-2-2003 से शुरू मानी जाएगी।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2003

सं० ए-12026/4/2001-स्था—राष्ट्रपति, श्री जे० सी० तलवार, प्रमुख कार.श्रेणी-I को रु० 6500-200-10500/- के वेतनमान में दिनांक 13-11-2003 (पूर्वाह्न) से आगामी छः महीने तक अटावा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुख्य प्रमुख कार. (तदर्थ) के स्तर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2003

सं० पी० एफ०/837/भा० सू० से०—श्रीमती वी० सी० रुक्मणि, भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी, दिनांक 5 सितम्बर 2003 की पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

2. श्रीमती वी० सी० रुक्मणि ने उसी तारीख से उप प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

सं० पी० एफ०/897/ भा० सू० से०—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी (एन एफ एस जी) श्री लालचन्द दिनांक 31 जुलाई, 2003 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

2. श्री लालचन्द ने उसी तारीख से संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, देहरादून के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार उप सचिव

दिनांक 13 नवम्बर 2003

सं० पी०एफ०/1238/आई०आई०एस०—भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी श्री त्रिलोकी नाथ, 1 नवम्बर 2003 की पूर्वाह्न को सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

2. श्री त्रिलोकी नाथ ने उसी तारीख से सहायक समाचार संपादक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली के पद का कार्य भार स्थापित किया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

भ्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2003

सं० ए-11016/02/2002-सीएलएस-II—राष्ट्रपति जी श्री हृषिकेश बनर्जी को दिनांक 31-10-2003 (अपराह्न) से 03-05-2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियोजन के आधार पर 26,000/- रुपये (निश्चित) के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-भ्रम न्यायालय, कोलकाता का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वाई० पी० सहगल, अवसर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 18th November 2003

No. A-19014/6/2003-Ad. I.—Consequent upon his transfer from Ministry of Social Justice & Empowerment, the President is pleased to appoint Shri Prabhu Dutt Bhardwaj, Deputy Director (OL) in the Cabinet Secretariat with effect from the afternoon of 17th November, 2003 until further orders.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 17th November 2003

No. 12/2/8/2003-I.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri T. Somasekhara Rao, Accounts Officer (Finance), Department of Space, Bangalore, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of October 31, 2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

The 20th November 2003

No. 6/1/3/2003-I.—The President is pleased to appoint Shri M. D. Mankad, IAS (GJ : 83), as Controller (Administration) in Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of October 31, 2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

The 21st November 2003

No. 12/2/7/2003-I.—The President is pleased to appoint on deputation Shri H. N. Shankar Rao, Senior Accounts Officer, Office of the Accountant General (A&E), Kanataka, as Accounts Officer (Finance) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Office of the Joint Secretary (Finance) Department of Space, Bangalore, with effect from the afternoon of October 31, 2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 13th November 2003

No. A. 19(12)/2003-Admn. II.—Consequent upon his transfer from the post of Assistant News Editor, All India Radio, Shillong to the Planning Commission vide Ministry of Information and Broadcasting's order No. 84/IIS/2003 dated 25.09.2003, Shri Mohammad Naseem has assumed charge of the post of Assistant Information Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 w. e. f. 10.11.2003(FN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 19th November 2003

No. A. 12026/5/2003-Admn. I. (L. D.).—The President is pleased to appoint Shri B. A. Agarwal, a permanent Officer of the Indian Legal Service and at present working as Joint Secretary & Legal Adviser in the Department of Legal Affairs, as Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 19th November, 2003.

N. L. MEENA, Joint Secy. & Legislative Counsel (Admn.)

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 6th November 2003

F. No. A-12023/31/99-Admn. III. (LA).—On attaining the age of 62 years, Shri V. Dongzathang, President, Income Tax Appellate Tribunal stands retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st October 2003 in accordance with rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 19th November 2003

No. 14034/6/2003-OL(Trg.).—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri S. L. S. Purthi, Assistant Director (Language), Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) in the pay scale of Rs. 10,000-325-12000, in the same office, on promotion, with effect from the forenoon of 31st October, 2003.

S. RAMANAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st September 2003

No. Q/PA-I/37/2003.—The President is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar Tyagi presently in the Grade-III (In-situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 1st August, 2003:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present position	Date of promotion
1.	Shri Rajendra Kumar Tyagi	Minister, EOI, Madrid	01.08.2003

2. On promotion to Grade III of IFS, Shri Rajendra Kumar Tyagi who is already in Grade-III of IFS on in-situ basis.

assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from the forenoon of the 1st August, 2003 on regular basis.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 5th September 2003

No. Q/PA-1/41/2003.—Following superannuation of Shri Vijay K. Nambiar, an officer of Grade I of IFS and presently Permanent Representative of India to the United Nations, New York on 31.08.2003 (A/N), the competent authority is pleased to re-employ Shri Vijay K. Nambiar as Permanent Representative of India at New York, for a period of nine months w. e. f. 01.09.2003 upto 31.05.2004.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP/Cadre)

New Delhi, the 23rd October 2003

No. D. III/460/CF-15/2002.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Ms. Radha Bhatia as Honorary Consul of the Government of Solomon Islands in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Ms. Radha Bhatia comprises the entire territory of India.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F).

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 12th November 2003

F. No. 1/19/2002-Cy-III.—On attaining the age of superannuation, Shri R. B. Sahastrabudhe, Chief Control Officer, Currency Note Press, Nashik Road, relinquished the charge of the post of Chief Control Officer on 31st October, 03 (Afternoon). His name stands deleted from the rolls of Currency Note Press with effect from that date.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

The 19th November 2003

F. No. 3/22/2003-Cy-III.—On attaining the age of superannuation, Shri S. A. Shingne, Manager (Designs), India Security Press, Nashik Road, relinquished the charge of the post of Manager (Designs) on 31st October, 03 (Afternoon). His name stands deleted from the rolls of India Security Press with effect from that date.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 20th November 2003

No. PFG(390)/79-AD.II.—On his promotion to Junior Administrative Grade (Legal Branch) of Indian Company Law

Service in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, the Central Government have appointed Shri A. W. Ansari, a Junior Administrative Grade (Legal Branch) Officer to officiate as Joint Director (Inspection) in the Office of Regional Director, Mumbai with effect from the forenoon of 19.09.2003 (with additional charge of Deputy Official Liquidator, Mumbai) until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE) (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 18th November 2003

No. A-12022/1/2003-ESI.—The President is pleased to appoint Sh. S. K. Sood, IAS (HP : 71) as Director General (Supplies & Disposals) in the Directorate General of Supplies & Disposals, Department of Commerce, in the rank and pay of Additional Secretary, with effect from the forenoon of 6.10.2003, till further orders.

S. K. DEB, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 17th November 2003

No. 20/2003 (A-19011/12/2003-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Syed Nasimut Tauheed, a retired State Govt. employee belonging to Bihar Administrative Services, as Additional Private Secretary to Minister of Textiles (Shri Syed Shah Nawaz Hussain) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, with effect from the forenoon of 1st November, 2003.

2. The appointment of Shri Syed Nasimut Tauheed will be on co-terminus basis or upto the period as desired by the Minister of Textiles, whichever is earlier.

P. K. GERA, Director

MINISTRY OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 18th November 2003

No. 9(4)/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Aggarwal, an officer of the Indian Cost Accounts Service (1990) to the post of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Ministry of Disinvestment with effect from the forenoon of 10th November 2003 until further orders.

V. P. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-The 11th November 2003

No. A-18011(38)/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B.K. Mukhopadhyay, CSS, Deputy Secretary

(in-situ) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Small Scale Industries (Shri Tapan Sikdar) for a period of five years, with effect from 5.11.2003 (A/N) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RICHH PAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 5th November 2003

No. A-18011/44/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B.S. Minhas, IAS (Raj: 69) as Secretary in the Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro and Rural Industries with effect from the afternoon of 3.11.2003, until further orders.

H.R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 5th November 2003

F.No. 1/3/2001-Admn./DSIR—The President is pleased to appoint Shri Lalit Gupta, Scientists 'D' to the post of Scientist 'F' on his in-situ promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS) in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- in the Department of Scientific and Industrial Research, with effect from 5th November, 2003.

GURMIT SINGH, Under Secy.

F.No. 1/3/2001-Admn./DSIR—The President is pleased to appoint Shri Harbans Lal Jussal, Scientists 'D' to the post of Scientist 'F' on his in-situ promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS) in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- in the Department of Scientific and Industrial Research, with effect from 5th November 2003, subject to the outcome of Civil Writ Petition No. 5874/2002 filed in Delhi High Court.

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPTT. OF ISM & HOMOEOPATHY)

New Delhi, the 31st October 2003

No. A-38012/1/2003-ISM (E.II)—On attaining the age of superannuation, Smt. Malti S. Sinha, IAS (BH:66) has relinquished the charge of the post of Secretary in the Department of Indian Systems of Medicines & Homoeopathy, M/o Health & Family Welfare with effect from the afternoon of 31st October, 2003.

B.R. CHUGH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th November 2003

No. 27-2529/2003-E-I—The President is pleased to appoint Shri P.K. Sharma, IFS (UP:86), Deputy Secretary in Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) as Director in the pay scale of Rs. 14300-400-18300/- as a measure personal to him in the same Department with effect from the forenoon of 3.11.2003 for the balance period of his tenure i.e. up to 08.09.2008 or until further order, whichever event takes place earlier.

K.D. UPRETI, Under Secy.

The 18th November 2003

No. 12026/6/2001-E.I/E.V.—In pursuance of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri. J.S. Mann, a regular Deputy Commissioner (INM) in the Department of Agriculture & Cooperation as Additional Commissioner (INM) in the pay scale of Rs. 14300—18300/- on promotion basis with effect from 4.11.2003 (FN) and until further orders.

K.D. UPRETI, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

New Delhi, the 6th November 2003

No. 2-22/2002-Fy. Admn.—The President is pleased to appoint Shri K. Gopalakrishnan, Zonal Director to the post of Deputy Director General (Fisheries), General Central Service Group 'A' Gazette, Non-Ministireal on regular basis in Fishery Survey of India in the scale of pay Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 22.09.2003 (FN).

R.K. MEHTA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th November 2003

No. E(GP) 2000/1/49—The President is pleased to approve of Shri V. Natarajan (SC), a Group 'B' officer of Civil Engg. Deptt. of Southern Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 13th September, 2002 on that Railway. Shri V. Natarajan would however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 4.7.2003 only.

R.R. BHANDARI, Secy./Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 16th October 2003

No. A-12012/5/2001-E.I—The President is pleased to appoint Smt. Raj Mohan Ahluwalia, Stenographer Grade 'C'

of Central Secretariat Stenographers Service on the cadre of this Ministry as Private Secretary of the same service on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-10,500/- for a period of six months w.e.f. the forenoon of 13.10.2003 or till the regular/select list candidate becomes available, whichever is earlier.

Smt. Raj Mohan Ahluwalia, P.S. [Ad-Hoc] is posted in the Ministry of Shipping.

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 19th November 2003

No. A-19011/4/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Jain, Sr. Manager, Airport Authority of India as Private Secretary to the Minister of State for Shipping (Shri Dilip Kumar Mansukhlal Gandhi) w.e.f. 29.9.2003 at the level of Director for the balance period of his 5 year tenure i.e. upto 05.02.2008 or till he ceases to function as PS to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. He counts his tenure w.e.f. the 05.02.2003.

S K., SHAHI, Under Secy.

The 21st November 2003

No. A-12026/4/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. J.C. Talwar, Draftsman Grade-I, as Chief Draftsman on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 13.11.2003 (FN) for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer on him any right for regular appointment.

S.K. SHAHI, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th November 2003

No. PF/837/IIS—Smt. V.C. Rukmani, a Junior Administrative Grade Officer of IIS Group 'A' retired voluntarily from Govt. service on the forenoon of 5th September, 2003.

2. Smt. V.C. Rukmani relinquished charge of the post of DPIO, PIB, New Delhi on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

No. PF/897/IIS—On attaining the age of superannuation, Shri Lal Chand, a Junior Administrative Grade Officer (NPSG) of IIS Group 'A' retired from Govt. service on the afternoon of 31st July, 2003.

2. Shri Lal Chand relinquished charge of the post of Joint Director, DFP, Dehradun on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

The 13th November 2003

No. PF/1238/IIS—Shri Triloki Nath, a Junior Grade Officer of IIS Group 'A' retired voluntarily from Govt. service in the forenoon of 1st November, 2003.

2. Shri Triloki Nath relinquished charge of the post of Asstt. News Editor, NSD, AIR, New Delhi on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th November 2003

No. A-11016/2/2002-CLS-II—The President is pleased to appoint Shri Hrishikesh Banerji, as Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court Kolkata in the scale of pay Rs. 26,000/- (fixed) on re-employment basis w.e.f. 31.10.2003 (A.N.) to 03.05.2006 or till further order whichever is earlier.

Y.P. SEHGAL, Under Secy.